

श्रुतपंचमी पूजा Srutapañcamī Pūjā

कवियत्री अरुणा जैन 'भारती'

kaviyatṛī aruṇā jaina 'bhāratī'

स्थापना : कुसुमलता छंद

सरस्वती की पूजा करने, श्री जिनमंदिर आये हम |
भव्य-भारती की पूजाकर, जीवन सफल बनाएं हम ||
श्रुत के आराधन से मन में, ज्ञान की ज्योति जलाएं अब |
पर्यायों को कर विनष्ट अब, निजस्वरूप को पायें सब ||
कर रहे आह्वान मात का, दृढ़ता हमको दे देना |
सदा रहे बस ध्यान आपका, ये ही सबक सिखा देना ||

ॐ ह्रीं श्रीपरमद्रव्यश्रुत षट्खंडागम! अत्र अवतर अवतर संवोषट् (आह्वाननम्)!

ॐ ह्रीं श्रीपरमद्रव्यश्रुत षट्खंडागम! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः! (स्थापनम्)

ॐ ह्रीं श्रीपरमद्रव्यश्रुत षट्खंडागम! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्! (सन्निधिकरणम्)

sthāpanā: Kusumalatā chanda

Sarasvatī kī pūjā karanē, śrī jinamandira āyē hama |
Bhavya-bhāratī kī pūjākara, jīvana saphala banā'ēm hama ||
Śruta kē ārādhana sē mana mēm, jñāna kī jyōti jalā'ēm aba |
Paryāyōm kō kara vinaṣṭa aba, nijasvarūpa kō pāyēm saba ||
Kara rahē āhvāna māta kā, dṛḥatā hamakō dē dēnā |
Sadā rahē basa dhyāna āpakā, yē hī sabaka sikhā dēnā ||

Ōm hrīm śrīparamadravyaśruta ṣaṭkhaṇḍāgama! Atra avatara avatara sanvaṣaṭ! (āhvānanam)

Ōm hrīm śrīparamadravyaśruta ṣaṭkhaṇḍāgama! Atra tiṣṭha tiṣṭha ṭha: ṭha: (Sthāpanam)

Ōm hrīm śrīparamadravyaśruta ṣaṭkhaṇḍāgama! Atra mama sannihitō bhava bhava vaṣaṭ!

(sannidhikaraṇam)

(जोगीरासा)

प्रासुक निर्मल नीर लिये, प्रभु का अभिषेक करायें |
गंधोदक निज शीश धारकर, प्रभुवाणी चित्त लायें ||
श्रुतपंचमी का पर्व सुपावन, सब मिल आज मनायें |
चारों अनुयोगों की पूजन, करके मन हर्षायें ||

ॐ ह्रीं श्रीषट्खंडागमाय जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

(Jōgīrāsā)

Prāsuka nirmala nīra liyē, prabhu kā abhiṣēka karāyēm |
 Gandhōdaka nija śīśa dhārakara, prabhuvāṇī citta lāyēm ||
 Śrutapañcamī kā parva supāvana, saba mila āja manāyēm |
 Cārōm anuyōgōm kī pūjana, karakē mana harṣāyēm ||

Ōm hrīm śrīṣaṭkhaṇḍāgamāya Janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalam nirvapāmīti svāhā |1|

शीतल और सुवासित चंदन, केसर संग घिसायें |
 जिनवाणी का अर्चन करके, अंतर ताप मिटायें ||
 श्रुतपंचमी का पर्व सुपावन, सब मिल आज मनायें |
 चारों अनुयोगों की पूजन, करके मन हर्षायें ||

ॐ ह्रीं श्रीषट्खंडागमाय संसारताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Śītala aura suvāsita candana, kēsara saṅga ghisāyēm |
 Jinavāṇī kā arcana karakē, antara tāpa miṭāyēm ||
 Śrutapañcamī kā parva supāvana, saba mila āja manāyēm |
 Cārōm anuyōgōm kī pūjana, karakē mana harṣāyēm ||

Ōm hrīm śrīṣaṭkhaṇḍāgamāya Sansāratāpa-vināśanāya candanam nirvapāmīti svāhā |2|

चंद्रकांति-सम उज्ज्वल अक्षत, लेकर पुंज बनायें |
 श्री जिन आगम पूजन करके, अक्षय पद पा जायें ||
 श्रुतपंचमी का पर्व सुपावन, सब मिल आज मनायें |
 चारों अनुयोगों की पूजन, करके मन हर्षायें ||

ॐ ह्रीं श्रीषट्खंडागमाय अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।३।

Candrakānti-sama ujjvala akṣata, lēkara puñja banāyēm |
 Śrī jina āgama pūjana karakē, akṣaya pada pā jāyēm ||
 Śrutapañcamī kā parva supāvana, saba mila āja manāyēm |
 Cārōm anuyōgōm kī pūjana, karakē mana harṣāyēm ||

Ōm hrīm śrīṣaṭkhaṇḍāgamāya Akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |3|

महासुगंधित पुष्प मनोहर, चुन-चुनकर ले आयें |
 शारदा माँ को भेंट चढ़ाकर, कामवेग विनशायें ||
 श्रुतपंचमी का पर्व सुपावन, सब मिल आज मनायें |
 चारों अनुयोगों की पूजन, करके मन हर्षायें ||

ॐ ह्रीं श्रीषट्खंडागमाय कामबाण-विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Mahāsugandhita puṣpa manōhara, cuna-cunakara lē āyēm |
 Śāradā māṅ kō bhēṅṭa caṛhākara, kāmavēga vinaśāyēm ||
 Śrutapañcamī kā parva supāvana, saba mila āja manāyēm |

Cārōm anuyōgōm kī pūjana, karakē mana harṣāyēm ||

Ōm hrīm śrīṣaṭkhaṇḍāgamāya Kāmabāna-vidhvansanāya puṣpaṁ nirvapāmīti svāhā |4|

षट्स मय नैवेद्य बनाकर, श्रुत अर्चन को लायें |
श्री जिनवर से करें प्रार्थना, क्षुधा रोग नश जायें |
श्रुतपंचमी का पर्व सुपावन, सब मिल आज मनायें |
चारों अनुयोगों की पूजन, करके मन हर्षायें ||

ॐ ह्रीं श्रीषट्खंडागमाय क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Ṣaṭrarasa maya naivēdya banākara, śruta arcana kō lāyēm |

Śrī jinavara sē karēm prārthanā, kṣudhā rōga naśa jāyēm |

Śrutapañcamī kā parva supāvana, saba mila āja manāyēm |

Cārōm anuyōgōm kī pūjana, karakē mana harṣāyēm ||

Ōm hrīm śrīṣaṭkhaṇḍāgamāya Kṣudhārōga-vināśanāya naivēdyaṁ nirvapāmīti svāhā |5|

सुरभित गौघृत शुद्ध भराकर, रतनन दीप जलायें |
अंतर मन भी आलोकित हो, यही भावना भायें ||
श्रुतपंचमी का पर्व सुपावन, सब मिल आज मनायें |
चारों अनुयोगों की पूजन, करके मन हर्षायें ||

ॐ ह्रीं श्रीषट्खंडागमाय मोहान्धकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Surabhita gaughṛta śud'dha bharākara, ratanana dīpa jalāyēm |

Antara mana bhī ālōkita hō, yahī bhāvanā bhāyēm ||

Śrutapañcamī kā parva supāvana, saba mila āja manāyēm |

Cārōm anuyōgōm kī pūjana, karakē mana harṣāyēm ||

Ōm hrīm śrīṣaṭkhaṇḍāgamāya Mōhāndhakāra-vināśanāya dīpaṁ nirvapāmīti svāhā |6|

दशविध निर्मल गंध मिलाकर, चंदन चूर्ण बनायें |
अष्टकर्म दुर्गन्ध दूरकर, आतम को महकायें ||
श्रुतपंचमी का पर्व सुपावन, सब मिल आज मनायें |
चारों अनुयोगों की पूजन, करके मन हर्षायें ||

ॐ ह्रीं श्रीषट्खंडागमाय अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Daśavidha nirmala gandha milākara, candana cūrṇa banāyēm |

Aṣṭakarma durgandha dūrakara, ātama kō mahakāyēm ||

Śrutapañcamī kā parva supāvana, saba mila āja manāyēm |

Cārōm anuyōgōm kī pūjana, karakē mana harṣāyēm ||

Ōm hrīm śrīṣaṭkhaṇḍāgamāya Aṣṭakarma-dahanāya dhūpaṁ nirvapāmīti svāhā |7|

मधुर रसीले श्रीफल, लेकर भारती भेंट चढायें |

संयम, त्याग का पालन करके, मनुज जन्म फल पायें ॥
 श्रुतपंचमी का पर्व सुपावन, सब मिल आज मनायें ।
 चारों अनुयोगों की पूजन, करके मन हर्षायें ॥

ॐ ह्रीं श्रीषट्खंडागमाय मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Madhura rasilē śrīphala, lēkara bhāratī bhēṅṭa caḍhāyēm |
 Sanyama, tyāga kā pālana karakē, manuja janma phala pāyēm ||
 Śrutapañcamī kā parva supāvana, saba mila āja manāyēm |
 Cārōm anuyōgōm kī pūjana, karakē mana harṣāyēm ||

Ōm hrīm śrīṣaṭkhaṇḍāgamāya Mōkṣaphala-prāptayē phalaṁ nirvapāmīti svāhā |8|

आकर्षक मनहारी सुन्दर, वेष्टन नया बनायें ।
 सब ग्रंथों को करें सुरक्षित, धारा ज्ञान बहायें ॥
 श्रुतपंचमी का पर्व सुपावन, सब मिल आज मनायें ।
 चारों अनुयोगों की पूजन, करके मन हर्षायें ॥

ॐ ह्रीं श्रीपरमद्रव्यश्रुत-षट्खंडागमाय नवीन वेष्टन समर्पयामीति स्वाहा ।९।

Ākarṣaka manahārī sundara, vēṣṭana nayā banāyēm |
 Saba granthōm kō karēm surakṣita, dhārā jñāna bahāyēm ||
 Śrutapañcamī kā parva supāvana, saba mila āja manāyēm |
 Cārōm anuyōgōm kī pūjana, karakē mana harṣāyēm ||

Ōm hrīm śrīparamadravyaśruta-ṣaṭkhaṇḍāgamāya navīna vēṣṭana samarpayāmīti svāhā |9|

जल से फल तक अष्ट द्रव्य ले, वागीश्वरि गुण गायें ।
 अर्घ्य चढ़ाकर पद अनर्घ्य की, प्राप्ति करें सुख पायें ॥
 श्रुतपंचमी का पर्व सुपावन, सब मिल आज मनायें ।
 चारों अनुयोगों की पूजन, करके मन हर्षायें ॥

ॐ ह्रीं श्रीषट्खंडागमाय अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१०।

Jala sē phala taka aṣṭa dravya lē, vāgīśvari guṇa gāyēm |
 Arghya caṛhākara pada anarghya kī, prāpti karēm sukha pāyēm ||
 Śrutapañcamī kā parva supāvana, saba mila āja manāyēm |
 Cārōm anuyōgōm kī pūjana, karakē mana harṣayēm ||

Ōm hrīm śrīṣaṭkhaṇḍāgamāya Anarghyapada-prāptayē arghyam nirvapāmīti svāhā |10|

तीर्थकर गणधर मुनिवर को, झुक-झुक शीश नवायें ।
 जिनवाणी से अंतर्मन का, कर्मकलुष धो जायें ॥

Tīrthakara gaṇadhara munivara kō, jhuka-jhuka śīśa navāyēm |
 Jinavāṇī sē antarmana kā, karmakaluṣa dhō jāyēm ||

जयमाला Jayamālā

(कुसुमलता छंद)

श्री धरसेनाचार्य गुरु ने, दो शिष्यों को दिया सुज्ञान ।
भूतबली अरु पुष्पदंत थे, दोनों शिष्य महागुणवान ॥१॥

(kusumalatā chanda)

Srī dharasēnācārya guru nē, dō śiṣyōṃ kō diyā sujñāna ।
Bhūtabalī aru puṣpadanta thē, dōnōṃ śiṣya mahāguṇavāna ॥1॥

षट्खंडागम की रचना कर, प्रभुवाणी को अमर किया ।
गजरथ पर आरूढ़ कराकर, सादर श्रुत को नमन किया ॥२॥

Ṣaṭkhaṇḍāgama kī racanā kara, prabhuvāṇī kō amara kiyā ।
Gajaratha para ārūṛha karākara, sādara śruta kō namana kiyā ॥2॥

अंकलेश्वर वह परमधाम है, जहाँ ये उत्सव पूर्ण हुआ ।
द्वादशांग में किया समाहित, स्याद्वाद का चूर्ण महा ॥३॥

Aṅkalēśvara vaha paramadhāma hai, jahāṃ yē utsava pūrṇa hu'ā ।
Dvādaśāṅga mēm kiyā samāhita, syādvāda kā cūrṇa mahā ॥3॥

शुक्ल पंचमी ज्येष्ठ मास की, पावन पर्व मनाते हैं ।
श्रुत का पूजन अर्चन करके, शुद्धातम गुण गाते हैं ॥४॥

Śukla pañcamī jyēṣṭha māsa kī, pāvana parva manātē hairṃ ।
Śruta kā pūjana arcana karakē, śud'dhātama guṇa gātē hairṃ ॥4॥

मंगलाचरण लिखा है गुरु ने, जो भी षट्खंडागम में ।
णमोकार यह महामंत्र है, पूजित हुआ सकलजग में ॥५॥

Maṅgalācaraṇa likhā hai guru nē, jō bhī ṣaṭkhaṇḍāgama mēm ।
Ṇamōkāra yaha mahāmantra hai, pūjita hu'ā sakalajaga mēm ॥5॥

घर-घर पाठ करें नर-नारी, बच्चे भी कंठस्थ करें ।
निजपद पाने को मुनिवर भी, मंत्र में ही ध्यानस्थ रहें ॥६॥

Ghara-ghara pāṭha karēm̄ nara-nārī, baccē bhī kaṅṭhastha karēm̄ |
Nijapada pānē kō munivara bhī, mantra mēm̄ hī dhyānastha rahēm̄ ||6||

वेष्टन नया चढ़ाकर इस दिन, श्रुत की पूजा करते हैं |
सब ग्रंथों को धूप दिखाकर, उनकी रक्षा करते हैं ||७||

Vēṣṭana nayā caṅṭhākara isa dina, śruta kī pūjā karatē hair̄m̄ |
Saba granthōm̄ kō dhūpa dikhākara, unakī rakṣā karatē hair̄m̄ ||7||

सदा करें श्रुत का आराधन, आत्मसाधना करने को |
होंय निराकुल अंत समय में, कर्म कालिमा हरने को ||८||

Sadā karēm̄ śruta kā ārādhana, ātmasādhanā karanē kō |
Hōnya nirākula anta samaya mēm̄, karma kālimā haranē kō ||8||

दर्शन ज्ञान चरित तप द्वारा, चारों आराधन पायें |
अन्त में आत्मज्ञान कर 'अरुणा', मरण समाधि कर जायें ||९||

ॐ ह्रीं श्रीपरमद्रव्यश्रुत-षट्खंडागमाय जयमाला-पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

Darśana jñāna carita tapa dvārā, cārōm̄ ārādhana pāyēm̄ |
Anta mēm̄ ātmajñāna kara 'aruṇā', maraṇa samādhi kara jāyēm̄ ||9||

Ōm̄ hīrīm̄ śrīparamadravyaśruta-ṣaṭkhaṇḍāgamāya jayamālā-pūrṇārghyam̄ nirvapāmīti svāhā.

(दोहा)

श्रुतपंचमी के पर्व पर, करें जो श्रुत-अभ्यास |
अनुभव में स्वातम मिले, अन्त-समय सन्यास ||

(Dōhā)

Śrutapañcamī kē parva para, karēm̄ jō śruta-abhyāsa |
Anubhava mēm̄ svātama milē, anta-samaya san'yāsa ||

॥ इत्याशीवदिः पुष्पांजलिं क्षिपेत् ॥

.. Ityāśīrvāda: Puṣpāñjalim̄ kṣipēt..

• * * * A * * *